

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को साइट सलेक्शन मैगजीन के द्वारा निवेश करने के लिए कैनेडा के सबसे श्रेष्ठ स्थानों में से एक के तौर पर मान्यता दी गई

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (3 सितम्बर, 2021) – कल, साइट सलेक्शन मैगजीन (Site Selection Magazine) ने कैनेडा के सबसे श्रेष्ठ स्थानों की अपनी सूची की घोषणा की, जिसमें सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को टॉप 20 का दर्जा मिला। यह मैगजीन, कार्पोरेट रियल एस्टेट और इकोनॉमिक डिवेलपमेंट को कवर करने वाली, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भेजी जाने वाली बिजनेस पब्लिकेशन है।

इस रैंकिंग से, सिटी के [इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफिस \(Economic Development Office\)](#) को साइट सलेक्शन मैगजीन के द्वारा, निवेश करने के लिए कैनेडा के सबसे श्रेष्ठ स्थानों में से एक के तौर पर मान्यता दी गई है। सिटी के मुख्य सेक्टर्स: इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (Innovation and Technology), एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग (Advanced Manufacturing), फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग (Food and Beverage Processing) और हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज (Health and Life Sciences) पर अपने आर्थिक विकास के प्रयासों पर सिटी ने ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है। 2020 में, सिटी की एफ.डी.आई. स्ट्रैटजी (FDI Strategy) के हिस्से के तौर पर, बिजनेस रिटेंशन एंड एक्सपेंशन (Business Retention and Expansion) पर अधिक ज़ोर दिया गया था। ब्रैम्पटन, कैनेडा में दूसरा सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला शहर है, जिसकी आबादी लगभग 700,000 है। मध्यम 36 वर्ष की उम्र के साथ, ब्रैम्पटन का 320,000 युवा, पढ़ा-लिखा और विविध कार्यबल, 115 भाषाएं बोलने वाले 234 से अधिक संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करता है।

मई, 2020 में ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) के द्वारा मंज़ूर किया गया निवेश, सिटी की [इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी \(Economic Recovery Strategy\)](#) का महत्वपूर्ण आधार है। सिटी के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट (Innovation District) का लगातार विकास, कार्यनीति का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है। इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी का उद्देश्य, ब्रैम्पटन की अर्थव्यवस्था में स्थिरता और प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करना है और यह सिटी को कोविड-19 (COVID-19) महामारी से बाहर निकालकर आगे बढ़ने में मदद करेगी।

ब्रैम्पटन, हाल ही में घोषित किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के साथ, शहर में बड़े निवेश को लगातार आकर्षित कर रहा है:

- **अलेक्ट्रा:** जून में, [अलेक्ट्रा ने घोषणा की \(Alectra announced\)](#) कि उसकी ब्रैम्पटन में 200 केनेडी रोड साउथ (200 Kennedy Road South) में स्थित बिल्कुल नए स्थिर ऑपरेशन्स सेंटर के निर्माण की योजना है।

नई जगह के एक किलोमीटर के अंदर, रिटेल सेक्टर में 78 और रिहायश और फूड संबंधी सेवाओं में 55 कारोबार हैं। इस क्षेत्र में मौजूदा साइट पर ढाई गुणा अधिक नौकरियों पर - 400 कर्मचारियों को लाते हुए, अलेक्ट्रा, ऑपरेशन्स सेंटर के पास मौजूद, ब्रैम्पटन के रिटेल और फूड कारोबारों को मज़बूत बनाएगी, जिससे भविष्य में शहर की लोकल अर्थव्यवस्था की बहाली और वृद्धि में सहायता मिलेगी।

- **कोक कैनेडा बॉटलिंग:** दिसम्बर 2020 में, कोक कैनेडा बॉटलिंग (Coke Canada Bottling) ने, कोक कैनेडा बॉटलिंग ब्रैम्पटन फैसिलिटी में 12.8 मिलियन डॉलर के नए निवेश की घोषणा की थी। इस निवेश का प्रयोग, उपभोक्ताओं के लिए अधिक उत्पाद नवीनता की जरूरत को पूरा करने के लिए मौजूदा लाइन मैनुफैक्चरिंग क्षमताओं को बदलने में किया जाएगा
- **मैपल लॉज फार्म्स:** इस वर्ष के शुरू में, मैपल लॉज फार्म्स (Maple Lodge Farms) ने घोषणा की कि उनकी अपने ब्रैम्पटन के प्लांट का 250,000 वर्ग फुट तक विस्तार करने की योजना है, जो अतिरिक्त 300 नौकरियां पैदा करेगा। उनकी चिकन शॉप (Chicken Shop) रिटेल स्थान के लिए नई साइट लेने की भी योजनाएं हैं, यह 100 और नौकरियां पैदा करेगी।

पूरे नतीजे और रैंकिंग्स के बारे में अधिक जानकारी [यहां \(here\)](#) उपलब्ध है।

## हवाले

“ब्रैम्पटन अवसरों का शहर है और कैनेडा के इनोवेशन कॉरिडोर पर हमारा मुख्य स्थान और हमारी प्रतिस्पर्धी प्रतिभाओं के साथ, हम ग्लोबल कारोबारों को निवेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान करते हैं। हमें साइट सलेक्शन मैगजीन के द्वारा कैनेडा के सबसे श्रेष्ठ स्थानों में से एक के तौर पर मान्यता दिए जाने पर गर्व है और हम सभी संभावी साइट चयनकर्ताओं का इस बारे में अधिक जानने के लिए स्वागत करते हैं कि कौन-सी चीज हमें भविष्य का सर्वश्रेष्ठ शहर बनाती है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“महामारी के प्रभावों से बाहर निकलकर आगे बढ़ने के समय, निवेश ब्रैम्पटन की अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी लाभ और स्थिरता लाने में मुख्य भूमिका निभाएगा, जब हम बहाली पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ब्रैम्पटन का अर्थ है, कारोबार और हमें गर्व है कि साइट सलेक्शन मैगजीन ने हमारे शहर को निवेश करने के लिए कैनेडा के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों में से एक के तौर पर मान्यता दी है।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“निवेश, सिटी की इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी का महत्वपूर्ण आधार है और ब्रैम्पटन, खुद को कैनेडा और पूरी दुनिया के कारोबारों के लिए नवपरिवर्तनशील शहर और मुख्य निवेश स्थान की स्थिति में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम, हमारे सर्वश्रेष्ठ शहर को कैनेडा के सबसे श्रेष्ठ स्थानों में से एक के तौर पर साइट सलेक्शन मैगजीन के द्वारा दी गई मान्यता का स्वागत करते हैं। हमारी कुशल प्रतिभाओं के साथ, इनोवेशन कॉरिडोर पर स्थान और समर्पित इकोनॉमिक डिवेलपमेंट टीम के साथ, ब्रैम्पटन हमारी कम्युनिटी में निवेश का स्वागत करने के लिए तैयार है।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; वाइस-चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट एंड कल्चर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में, हम टर्म ऑफ काउंसिल प्रायरिटी: ब्रैम्पटन अवसरों का शहर है, की हिमायत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम कारोबारों के लिए निवेश करने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थान के तौर पर खुद को लगातार स्थापित कर रहे हैं। कैनेडा के सबसे श्रेष्ठ स्थानों में से एक के तौर पर इस मान्यता के लिए, ब्रैम्पटन इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफिस में हमारी टीम को बधाई हो। जैसे कि हम कोविड-9 महामारी से बाहर निकलकर आगे बढ़ रहे हैं, हम हमारे शहर की बहाली पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और

हम जारी निवेश को सुरक्षित करके हमारी अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना जारी रखेंगे।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

#### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)